



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14092024-257175  
CG-MH-E-14092024-257175

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721]  
No. 721]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

अधिसूचना

छत्रपती संभाजीनगर, 28 अगस्त, 2024

सं. म.ग्रा.बैं/सेवा (संशोधन) /2024.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976(1976 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का निदेशन मंडल, प्रायोजक बैंक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करने के बाद तथा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्वारा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियामावली, 2010 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाया है, यथा:—

1. (1) इन विनियामों को महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, २०२४ कहा जाएगा.

(2) ये संशोधन, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगे.

2. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 (जिन्हे इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 61 के उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(4) विशेषाधिकार अवकाश 270 दिनों से अधिक तक का नहीं जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके की जहां छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

वशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 240 दिन के लिए ही किया जा सकेगा”

3. उक्त विनियामों के विनियम 67 के,—

क) दुसरे प्रावधान में, “बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त “ शब्दों के बाद, “विनियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत” शब्द साम्मिलित किए जाएंगे;

ख) तिसरे प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाएगा, यथा :—

“यह भी प्रावधान किया जाता है कि उस कर्मचारी के संबंध में जिसकी सेवाएं छंटनी के कारण समाप्त कर दी जाती है, वह विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परीलब्धीयों के बराबर की राशी का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो उसने विनियम 61 के उप-विनियमन (4) के अधीन जमा कर रखा था.”

ग) तिसरे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, यथा,—

“यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक पेंशन विनियम, 2018 के विनियमन 27 के उप-विनियम (1) और (2) के तहत विधिवत नोटीस देने के बाद अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल 2018 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो वह अपने द्वारा विनियम 61 के उप-विनियम (4) के अधीन संचित विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परीलब्धीयों के बराबर की राशी का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा.

यह भी प्रावधान किया जाता है की जहा किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, जिसमे दंड भी शामिल है, वह विनियमन 61 के उप-विनियमन (4) के अधीन, किसी भी अवधि की परीलब्धीयों के बराबर की राशी का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा.

यह भी प्रावधान किया जाता है की जहा किसी अधिकारी या कर्मचारी सेवा छोड़ देता है या काम पर आना बंद कर देता है या विनियम 10 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के तहत पदत्याग कर देता है, तो वह सेवा की समाप्ति की तिथि को उसके खाते में जमा विशेषाधिकार छुट्टी की आधी अवधि की परीलब्धीयों के बराबर की राशी का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यह अवधि अधिकतम १२० दिन तक की हो सकती है.”

मिलिंद धारड, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./490/2024-25]

नोट:

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 को दिनांक 02 अक्टोबर 2010 को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 02 अक्टोबर 2010 की अधिसूचना संख्या 40 के माध्यम से प्रकाशित कीय गया था और बाद में दिनांक 17 नोव्हेंबर 2023 की अधिसूचना संख्या 765 द्वारा संशोधित किया गया था.

## MAHARASHTRA GRAMIN BANK

### NOTIFICATION

Chhatrapati Sambhajinagar, the 28th August, 2024

**No. MGB/Service Regulation (Amendment)/2024.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with subsection (1) of Section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of **Maharashtra Gramin Bank** after consultation with **Bank of Maharashtra**, being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the **Maharashtra Gramin Bank (Officers & Employees) Service Regulations, 2010**, namely:—

1. (1) These Regulations may be called **Maharashtra Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Maharashtra Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as said regulations), in the regulations 61 for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(4) Privilege Leave may be accumulated up to not more than 270 days, except where leave has been applied for and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of 240 days.'

3. In the said regulations, in regulation 67,—

(a) In second proviso, after the words "retires from the service of the Bank", the words "under the provisions of regulation 11" shall be inserted;

(b) For third Proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to sub-regulation (4) of regulation 61."

(c) After third proviso, the following provisos shall be inserted, namely,—

"Provided also that where an officer or employee voluntarily retires from service on or after the 1<sup>st</sup> of April 2018, after giving due notice under sub regulations (1) and (2) of regulation 27 of the Maharashtra Gramin Bank (Employees) Pension Regulations, 2018, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee leaves or discontinues from service or resigns under the provisions of sub-regulation (1) of regulation 10, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days."

MILIND B. GHARAD, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./490/2024-25]

Note: The Maharashtra Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 were published in the Gazette of India, Part III, section 4, dated the 02<sup>nd</sup> October, 2010 vide notification number 40 dated the 02<sup>nd</sup> October, 2010 and subsequently amended vide notification number 765 dated the 17<sup>th</sup> November 2023.